



## गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

|  |          |  |
|--|----------|--|
| नगर नियोजक<br>माजियावाद विकास प्राधिकरण<br>गाजियाबाद | सेवा मे. | मै. क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. (कन्सॉर्शियम)<br>द्वारा श्री सुमित अग्रवाल, अधिकृत हस्ताक्षरी<br>ग्लाम पेट, क्रासिंग रिपब्लिक, इंडाहेडा,<br>गाजियाबाद |
|--|----------|--|

पत्रक : १०५ शोधाना २४८

दिनांक : २०/११/२०२३

**विवाय:** भूखण्ड संग्रहा-सी-३ पर व्यवसायिक भवन के मानचित्र रक्षीकृति के सम्बन्ध में।

व्रप्त्या भूखण्ड सं. सी-3 पर व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु आप द्वारा मानचित्र संख्या 154/जोन-2/2011-12 की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.11.12 को निम्नलिखित शर्तों/अन्यथा के साथ प्रदान की गई है-

निरीक्षण शुल्क की धनराशि रु0 2,24,500.00 प्राधिकरण कोष में जमा करायी जाएगी।

लेकर सैस के मद में धनराशि रु० 15,11,100.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराना हागा।

प्रस्तावित भवन में रुक्फ टाप रेन बाटर हार्डस्टोंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रु. 2,00,000/- की जमानत राशि जमा करायी जानी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्धारित करने के समय रेम लाइट इंडिस्ट्रियल्स सिस्टम के नियन्त्रण एवं व्यवचित संचालन की युक्ति हांगे के उपरान्त अन्वयक्त की जायेगी।

भृ-स्वामित्व हेतु प्रस्तुत अभिलेखों एव साक्षों के विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है अथवा कोई विवाद नहीं है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माणकर्ता विद्यार्थकर्ताओं कम्पनी की स्वयं की होगी।

स्ट्रेंगर्ड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनारेखा दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तरांत समृद्धि आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मैं( क्रासिंग इनफा) प्राप्ति (कल्यांसिंधम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लकड़ पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अधिकरण द्वारा प्रतिभानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-वन्धा निर्माण, ग्रिंग सेड, फ्लाइ एचर, बेट्टो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, को समानुपातिक लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

इन्हींप्रेटड राइनिंग पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की राशि हमें लगभग 19.11 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डबलपर्मेट प्रीमिट के समय 2013 में देने को गयी है। जिसकी वैधता अवधि दि. 21.01.13 व 28.03.13 तक है जो

विकास के अन्य विकास द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो विकासकर्ता अपने मूल्य गाँजियादाद विकास प्राधिकरण द्वारा मारे जाने पर 30 दिन के अन्दर विकास करने की उम्मीद रखता है।

ज्ञानाधिकारी विद्युत अनुसंधान प्रयोग पत्र व अन्मोदित मानचित्र मानचित्र पत्र विद्युत ज्ञान संस्कृत

8. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन बाटर हार्डस्टिंग कार्य पूर्ण करना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, आन्तरिक विकास का पूर्णता; सम्बन्धी प्लान, निर्माण भूकम्परोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र व लिफ्ट के क्रियान्वयन सम्बन्धी एन.ओ.सी. आदि प्रस्तुत करनी होगी।
9. सन्दर्भित भूखण्ड पर 100 घे.पि.प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रखरखाव भी करना होगा।
10. मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम समाज/सरकारी भूमि को यथावत रखा जायेगा एवं प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मानी/नाला, चक्करोड़, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके द्वेषफल के बावजूद अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अनिम रूप से समाचारित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
11. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राईंग आड.आई.टी. रूडकी/ दिल्ली से वैट कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राईंग आई.आई.टी. रूडकी/ दिल्ली से वैट कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं तदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में करना होगा। डी.पी.आर./पुनरीक्षित स्वीकृत तलपट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिवन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001 (आ.व.) दि.03.02.01, 72/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी /2001 (आ.व.) दिनांक 13.02.01, तथा रासायनिक संगठन 375/ 9-आ-1-भूकम्परोधी /2001(आ.व.) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिवन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिवन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
- क- भवन निर्माण के पर्येक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्येक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवदु किया जायेगा। पर्येक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाओं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीपेन्ट, स्टील/स्टील ग्रिट, इंटर, कोर्स सैन्ड एवं मांटार तथा रोटर मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेंगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं में कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर आयों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। इन्होंना आव्यादियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इन सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यह ग्रन्थीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी चयोग्यता वाली रिपोर्ट सतोपजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुक्क्खाते हुए निर्माण छायां तथा अधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता; प्रमाण पत्र जारी नहीं होता वर्तमान नियमानुसार व उसके गहायक क्रियमित लिखितना की परिधि में जारी रहता है तदनुसार उसकी जायेगी।

- उ- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 1 फट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आकिटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :
- 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
  - 2- भन्मार्गित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण को पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राचिधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
  - 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनाये एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
  - 4- अधिकृत आकिटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त पार्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
  - 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
  - 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
  - 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
  12. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिवन्धों का पालन करना होगा।
  13. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शर्मनीय नहीं होगा।
  14. दर्शाये गये पार्किंग प्लान में निर्माण के समय पार्किंग प्लान के अनुसार ग्रिड/पिलर्स की दूरी रखी जायेगी तथा शमन/पूर्णता प्रमाण पत्र के समय ग्रिड सहित पार्किंग प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  15. आन्तरिक विकास कार्य का मानचित्र प्रस्तुत करने पर ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
  16. आइ.आई.टी. रूड़की अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से बेटेड स्ट्रक्चरल डिजाईन ड्राइंग प्रस्तुत करने पर ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
  17. सम्पूर्ण परिसर का विकास कार्य पूर्ण होने एवं अनिम्न डिस्पोजल प्लाईन्ट तक विस्तारण होने के सम्पूर्ण परिसर का विकास कार्य पूर्ण होने एवं अनिम्न डिस्पोजल प्लाईन्ट तक विस्तारण होने के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पूर्ण प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण परिसर का जारी किया जायेगा।
  18. सम्पूर्ण टाउनशिप हेतु प्रदूषण विभाग, एअरपोर्ट एथोरिटी की अनापत्ति प्राप्त होने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
  19. स्थल से लगी हुई ले-आउट ग्रीन दर्शित है। ले-आउट में सजरे पर इम्पोज प्लान के अनुसार सजरे का इन्वेन्टरी स्थहा पर काउन्ट के उपयोग ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा। पूर्णता प्रमाण पत्र के समय इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि स्थल से लगी ले-आउट ग्रीन में कोई भी निर्माण नहीं किया गया है न ही निर्माण का सेटबैक अथवा बाउण्ड्रीवाल स्थित है अर्थात् ले-आउट ग्रीन, ले-आउट प्लान के अनुसार स्थल पर स्थित है।
- कृपया उपरोक्त ओपन्यारिकताये पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर पूर्ण करने पर ही मानचित्र कृपया उपरोक्त ओपन्यारिकताये पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर पूर्ण करने पर ही मानचित्र
- कृपया उपरोक्त ओपन्यारिकताये पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर पूर्ण करने पर ही मानचित्र